




एसटीआई




बचाव



बचाव

1. अधिकतर यौन रोग / गुप्त रोग असुरक्षित यौन संबंध के कारण होते हैं ।
2. यौन रोग / गुप्त रोग को रोका जा सकता है यदि हम अपने नियमित साथी तथा ग्राहकों के साथ हर यौन क्रिया में कंडोम का प्रयोग करें।

चिन्ह एवं लक्षण




चिन्ह एवं लक्षण

सामान्य लक्षण

- . योनि से असामान्य सफ़ेद बदबूदार स्राव
- . पेढू में दर्द


चिन्ह एवं लक्षण



चिन्ह एवं लक्षण

- जननांगों / मुँह / गुदा में घाव

चिन्ह एवं लक्षण



चिन्ह एवं लक्षण

अन्य लक्षण

- जांघ / कांच में सूजन
- जननांग में एवं उसके आस पास जलन / खुजली
- पेशाब करते समय जलन व दर्द
- संभोग करते समय दर्द

उपचार



उपचार

- अधिकांश यौन रोग / गुप्त रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं।
- डाक्टर के द्वारा अपनी जाँच करवाएं।


उपचार



उपचार

- डाक्टर की सलाह पर जाँच कराएं।
- संक्रमण के पूरी तरह ठीक होने तक इलाज जारी रखें।

उपचार



उपचार

- जब तक संक्रमण पूरी तरह ठीक न हो जाए संभोग से बचें ।
- हर यौन क्रिया में कंडोम का उपयोग करें ।


उपचार



उपचार

- यदि एक साथी को यौन रोग/गुप्त रोग है तो पुनः संक्रमण से बचने के लिए दोनों को डाक्टर की सलाह पर दवा लेनी चाहिए।


उपचार



उपचार

- महिलाओं में कभी कभी यौन रोग/गुप्त रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए मासिक स्वास्थ्य जाँच बहुत ज़रूरी है।

रेफरल



रेफरल

- परियोजना क्लिनिक के डाक्टर या नर्स चेकअप/उपचार जैसी सेवाओं के लिए कम कीमत पर विशेषज्ञ के पास रेफर कर सकते हैं।
- टी.आई.परियोजना सरकार द्वारा दी जाने वाली रही निःशुल्क सेवाओं को प्राप्त करने में सहायता करती है जैसे क्षय रोग की चिकित्सा, बच्चों के लिए टीकाकरण इत्यादि।